

पात्रता समीक्षा अधिसूचना
Notification of Eligibility Review

क्लायंट का नाम और पता

क्लायंट के प्रतिनिधि का नाम और पता

संदर्भ: इसके लिए पात्रता समीक्षा की अधिसूचना _____

इस समय आप विकास संबंधी अक्षमता प्रशासन (डेवलपमेन्टल डिसेबिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन DDA) के लिए _____ के तहत पात्र हैं। DDA पात्रता नियमों के अनुसार विभिन्न समयों पर पात्रता की समीक्षा आवश्यक होती है। हमें निम्नलिखित स्थितियों में से एक के तहत प्रकरण 388-823 WAC के अनुसार DDA पात्रता की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है: बौद्धिक अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, मिरगी (एपिलेप्सी), ऑटिज़म, अन्य न्यूरोलॉजिकल या बौद्धिक अक्षमता के समान कोई अन्य स्थिति। अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्न आवश्यक दस्तावेज तालिका देखें।

DDA को इस पुनःनिर्धारण के लिए आवश्यक जानकारी मँगवा कर खुशी होगी। यदि आप चाहते/चाहती हैं कि DDA यह जानकारी मँगवाए, तो कृपया निम्नलिखित करें:

- संलग्न अनुमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करें
- फॉर्म में निर्दिष्ट करें कि हमें जानकारी कहाँ से मँगवानी है, और
- इसे संलग्न लिफाफे में DDA को वापस भेजें

सेवा में किसी भी खलल से बचने के लिए यथाशीघ्र उत्तर दें, लेकिन यह इसके बाद नहीं होना चाहिए _____.

यदि इस तिथि तक हमें आपसे जवाब नहीं मिलता, तो हम आपकी फाइल में उपलब्ध जानकारी के आधार पर पात्रता निर्धारण करेंगे।

यदि आपको कोई भी प्रश्न हो तो इनसे संपर्क करें:

नाम

टेलीफोन नंबर

ई-मेल एड्रेस

राज्य के पात्रता का संचालन करने वाले नियमों (WAC 388-823) की प्रति माँग करने पर प्राप्त हो सकती है या यहाँ पर ऑनलाइन उपलब्ध है <https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility>.

संलग्न: आवश्यक दस्तावेज तालिका
अनुमति फॉर्म (DSHS 14-012)

नकल: क्लायंट फाइल

आवश्यक दस्तावेज तालिका

अक्षमता स्थिति	निदान	निदानकर्ता	अन्य रिकॉर्ड
बौद्धिक अक्षमता	बौद्धिक अक्षमता (पहले मेन्टल रिटार्डेशन)	कोई लाइसेंसधारी सायकोलॉजिस्ट (मनोवैज्ञानिक), वॉशिंगटन प्रमाणित स्कूल सायकोलॉजिस्ट या स्कूल सायकोलॉजिस्ट के राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रमाणित कोई अन्य सायकोलॉजिस्ट	पूर्ण मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट जिसमें एक फुल स्केल IQ स्कोर हो जिसमें औसत से कम दो से अधिक मानक विचलन हों, और अनुकूलनक्षमता संबंधी कौशल परीक्षण का स्कोर जिसमें औसत से कम दो से अधिक मानक विचलन हों।
सेरेब्रल पाल्सी	सेरेब्रल पाल्सी क्वॉड्रिप्लेजिया हेमिप्लेजिया डायप्लेजिया	लाइसेंसधारी फिज़िशियन	3 वर्ष की आयु से पूर्व प्रारंभ, और दो या अधिक क्षेत्रों (शौच, स्नान, खाना, कपड़े पहनना, गतिविधि करना, या संचार) में रोजाना सीधे शारीरिक सहायता की आवश्यकता का समर्थन करने वाली जानकारी।
मिरगी (एपिलेप्सी)	मिरगी या दौरे पड़ने का रोग	बोर्ड द्वारा प्रमाणित न्यूरोलॉजिस्ट	चिकित्सा इतिहास और न्यूरोलॉजिकल परीक्षण पर आधारित निदान, फिज़िशियन या न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा अनियंत्रित और लगातार या बारंबार होने वाले दौरे की पुष्टि, और अनुकूलनक्षमता संबंधी कौशल परीक्षण का स्कोर जिसमें अनुकूलनसह कार्य करने में मर्यादाएं हों, जिसमें औसत से कम दो से अधिक मानक विचलन हों।
ऑटिज़म (DSM-IV के अनुसार)	ऑटिज़म या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर DSM-IV-TR में Per 299.00	कोई लाइसेंसधारी सायकोलॉजिस्ट, किसी ऑटिज़म या डेवेलपमेन्ट सेन्टर से संलग्न कोई एडवान्स्ड रजिस्टर्ड नर्स प्रेक्टिशनर (ARNP) या बोर्ड द्वारा प्रमाणित: न्यूरोलॉजिस्ट, सायकियाट्रिस्ट (मनोरोग चिकित्सक) या डेवेलपमेन्टल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन (विकास और व्यवहार संबंधी बच्चों के डॉक्टर)	सभी नैदानिक मानदंडों को पूर्ण करने वाला DSM-IV पूर्ण मूल्यांकन, 3 वर्ष की आयु पूर्व सामाजिक, भाषा संबंधी, संचार कौशलों या प्रतीकात्मक या कल्पनात्मक खेलों में देरी या असामान्य कार्य का साक्ष्य, और अनुकूलनक्षमता संबंधी कौशल परीक्षण का स्कोर जिसमें अनुकूलनसह कार्य करने में मर्यादाएं हों, जिसमें औसत से कम दो से अधिक मानक विचलन हों।
ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (DSM-V के अनुसार)	ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर 299.00 Per DSM-5 जिसमें दोनों कॉलमों में तीवर्ता स्तर 2 या 3 हो	कोई लाइसेंसधारी सायकोलॉजिस्ट, किसी ऑटिज़म या डेवेलपमेन्ट सेन्टर से संलग्न कोई एडवान्स्ड रजिस्टर्ड नर्स प्रेक्टिशनर (ARNP) या बोर्ड द्वारा प्रमाणित: न्यूरोलॉजिस्ट, सायकियाट्रिस्ट (मनोरोग चिकित्सक) या डेवेलपमेन्टल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन (विकास और व्यवहार संबंधी बच्चों के डॉक्टर)	सभी नैदानिक मानदंडों को पूर्ण करने वाला DSM-V पूर्ण मूल्यांकन, 3 वर्ष की आयु पूर्व सामाजिक, भाषा संबंधी, संचार कौशलों या प्रतीकात्मक या कल्पनात्मक खेलों में देरी या असामान्य कार्य का साक्ष्य, और अनुकूलनक्षमता संबंधी कौशल परीक्षण का स्कोर जिसमें अनुकूलनसह कार्य करने में मर्यादाएं हों, जिसमें औसत से कम दो से अधिक मानक विचलन हों, और औसत से नीचे एक या अधिक मानक विचलन वाला FSIQ – या – DSM-IV के अनुसार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर 299.00 के सारे मानदंड पूरे करते हों।
अन्य न्यूरोलॉजिकल या बौद्धिक अक्षमता जैसी कोई अन्य स्थिति	न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका संबंधी) या रंगसूत्र संबंधी डिसऑर्डर जिससे बौद्धिक और अनुकूलन कौशलों में कमी हो सकती है	लाइसेंसधारी फिज़िशियन	फुल स्केल IQ स्कोर हो जिसमें औसत से कम 1.5 से अधिक मानक विचलन हों, और अनुकूलनक्षमता संबंधी कौशल परीक्षण का स्कोर जिसमें अनुकूलनसह कार्य करने में मर्यादाएं हों, जिसमें औसत से कम दो से अधिक मानक विचलन हों।
<p>नोट: यह फॉर्म केवल एक सामान्य मार्गदर्शिका है, और DDA अतिरिक्त जानकारी या मूल्यांकनों की माँग कर सकता है। यह दस्तावेज पात्रता निर्धारण की ओर पहला कदम है। DDA पात्रता WAC प्रकरण 388-823 के अनुसार निर्धारित की जाती है।</p>			